

		आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा । (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्च । बच्चों को आश्रम के विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाए । (iii) तीन मास की अवधि तक के लिए बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था ।
22.	पूर्णतया नष्ट करना या जला हुआ मकान ।	जहां मकान को जला दिया गया है या नष्ट किया गया हो । वहां सरकार के खर्च पर ईंट-पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए ।”

[फा.सं.-11012/03/2013-पी.सी.आर. (डेस्क)]

संजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 316(अ), तारीख 31 मार्च, 1995 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 896(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2011 द्वारा उसका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2014

**G.S.R. 416 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:—

1.(1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, for the Schedule and Annexure-I, the following Schedule and Annexure-I shall be substituted, namely:—

### “SCHEDULE ANNEXURE-I [see rule 12(4)]

#### NORMS FOR RELIEF AMOUNT

Sl. No.	Name of the Offence	Minimum amount of Relief
(1)	(2)	(3)
1	Drink or eat inedible or obnoxious substance [Section 3 (1) (i)]	Ninety thousand rupees or more depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and also commensurate with the indignity, insult, injury and defamation suffered by the victim.
2	Causing injury insult or annoyance [Section 3(1)(ii)]	Payment to be made as follows -
3	Derogatory act [Sec. 3(1) (iii)]	I. 25 per cent when the charge sheet is sent to the court II. 75 per cent when accused are convicted by the lower court.
4	Wrongful occupation or cultivation of land, etc. [Section 3(1)(iv)]	At least Ninety thousand rupees or more depending upon the nature and gravity of the offence. The land or premises or water supply shall be restored where necessary at Government cost. Full payment to be made when charge-sheet is sent to the court.
5	Relating to land, premises and water [Section 3(1)(v)]	
6	Begar or forced or bonded labour [Section 3(1) (vi)]	At least Ninety thousand rupees to each victim. Payment of 25 per cent at First Information Report stage and 75 per cent on conviction in the lower court.
7	Relating to right to franchise [Section 3(1)(vii)]	Upto Seventy five thousand rupees to each victim depending upon the nature and gravity of the offence.
8	False, malicious or vexatious legal	Ninety thousand rupees or reimbursement of actual legal expenses and damages or

